

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257 ]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2025 — चैत्र 3, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 मार्च 2025

### अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5-18/2023/10-2(पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित वन क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इन शर्तों के अधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रूपांतरित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कोडोसाल्हेभाट (आई) उत्तर अक्षांश N 19° 59' 52.900" से N 19° 59' 58.300" एवं पूर्वी देशांश E 80° 56' 5.700" से E 80° 56' 14.800" के बीच स्थित है, अर्थात्:-

### अनुसूची

स. क्रं.	जिला-कांकेर, तहसील-कोयलीबेड़ा,		वन मण्डल-पश्चिम भानुप्रतापपुर,		वन परिक्षेत्र-कोयलीबेड़ा	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का न.	भूमि की वर्तमान मद	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)	अवस्थिति/सीमाये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोडोसाल्हेभाट (आई)	कोडोसाल्हेभाट 02	शासकीय भूमि (वन विभाग)	18	2.050	निकतम वन कक्ष क्र. एवं उसकी दूरी -नारंगी वन खंड कोडोसाल्हेभाट (ए) की कृत्रिम सीमा रेखा से लगा हुआ है।  उत्तर:- नारंगी वन खंड कोडोसाल्हेभाट (ए) के कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 3 से दक्षिण की ओर 200 मीटर की दूरी पर से प्रस्तावित वन खंड कोडोसाल्हेभाट (आई) के मुनारा क्र. 1 से 2 तक।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>पूर्व:- प्रस्तावित वन खंड के कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 2 से 4 तक।</p> <p>दक्षिण:- प्रस्तावित वन खंड के कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 4 से नारंगी वन खंड कोडोसालहेभाट (ए) के कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 5 तक।</p> <p>पश्चिम:- नारंगी वन खंड कोडोसालहेभाट (ए) के कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 5 से प्रस्तावित वन खंड की कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 तक तथा मुनारा क्र. 5 से कोडोसालहेभाट (ए) के मुनारा क्र. 4 से प्रस्तावित वन खंड की कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्र. 1 तक।</p>

**(क) अधिसूचना के प्रकाशन का कारण :-**

1. प्रकरण का नाम— छोटेडोंगर लोह अयस्क खदान से लोह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु; प्रस्तावित रकबा :- 2.025 हे.
2. भारत सरकार की स्वीकृति विवरण क्र. FC-8/22/2023-IRO-रायपुर/1591, दिनांक 29.02.2024
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पक्ष में नामांतरित, वन विभाग द्वारा नामांतरण क्र. 6006245/020724/00066/01, जुलाई 2024 खसरा आई.डी. 119580964

अतएव, उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र.16 सन.1927) की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 मार्च 2025

क्रमांक/एफ 5-18/2023/10-2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-18/2023/10-2 (पार्ट) दिनांक 17-03-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th March 2025

**NOTIFICATION**

No./F 5-18/2023/10-2(Part).— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby declares that the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Kodosalhebhat (I) lies between N 19°59'52.900" to N 19°59'58.300" North Latitude and E 80°56'5.700" to E 80°56'14.800" East Longitude, namely:-

## SCHEDULE

District:- Kanker, Tahsil:- Koyalibeda, Forest Division: – West Bhanupratappur, Forest Range:- Koyalibeda						
S.No.	Name of Forest Block	Name of Village and Patwari Halka No.	Present Head of Land	Khasara No.	Area (in hec.)	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kodosalhebbhat (I)	Kodosalhebbhat 02	Government Land (Forest Department)	18	2.050	Nearest forest Compartment No. and its Distance-The orange forest block is adjacent to artificial boundary line of Kodosalhebbhat (A).
						North- At a distance of 200 meters towards south from artificial boundary line Survey Pillar No.3 of orange forest block Kodosalhebbhat (A) to Survey Pillar No.1 to 2 of proposed Forest block Kodosalhebbhat (I).
						East - Artificial boundary line Survey Pillar No.2 to 4 of the proposed Forest Block.
						South - Artificial boundary line Survey Pillar No.4 of the proposed forest block to Artificial boundary line Survey Pillar No.5 of the Orange Forest block Kodosalhebbhat (A).
						West - From Artificial boundary line Survey Pillar No.5 of Orange forest block Kodosalhebbhat (A) to Artificial boundary line Survey Pillar No.5 of the proposed Forest Block and from Survey Pillar No. 5 to Pillar No.4 of Kodosalhebbhat (A) to Artificial boundary line Survey Pillar No.1 of the Proposed Forest block.

**(A) Reason for publication of notification:-**

1. Name of Project:-For construction of alternative road for transportation of iron ore from Chhotedongar iron ore mine; Proposed Area :- 2.025 ha.
2. Government of India sanction details No.FC-8/22/2023-IRO-Raipur/1591, dated 29.02.2024.
3. Mutated in favour of Government of Chhattisgarh, Forest Department by Mutation No. 6006245/020724/00066/01, July 2024 Khasra ID 119580964.

Now therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.